



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940

No. 449]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

**का.आ. 562(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी जो आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

**अनुसूची**

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए इलाहाबाद जिले के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण।

**जिले का नाम : इलाहाबाद**

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मेजा	(1) बिसहिजन खुर्द	157	0.1240
			457 मि०	0.0300
			458 मि०	0.0600
		(2) जगोपुर	16 मि०	0.0400
			21 मि०	0.0200
			24 मि०	0.0300
2.	करछना	(1) देवरीकलॉ	275 मि०	0.0650
		(2) गंधियाँव	562 मि०	0.2628
			576	0.0013
			549	0.0165

ऐसे सर्वे संख्या जिसके अध्याप्ति हेतु पहले अधिसूचित हो चुका है, और अब अतिरिक्त क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ रही है, वह इस नोटिफिकेशन में शामिल कर लिया गया है, उन्हें मिन्ज लिखकर इंगित किया गया है।

[फा. सं. 2013/एलएमएल/12/7/ईसी/986]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं—1)

**MINISTRY OF RAILWAYS**

**(Railway Board)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2019

**S.O. 562(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Allahabad in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Special Land Acquisition Officer, Allahabad, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district Allahabad in the State of Uttar Pradesh.

**Name of District : Allahabad**

Serial Number	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Area in Hectare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meja	(1) Bisahijan Khurd	157	0.1240
			457 Minj	0.0300
			458 Minj	0.0600
		(2) Jagepur	16 Minj	0.0400
			21 Minj	0.0200
			24 Minj	0.0300
2.	Karchhana	(1) Dewarikala	275Minj	0.0650
		(2) Gandhiyaon	562 Minj	0.2628
			576	0.0013
			549	0.0165

Those survey number where land for acquisition has been notified earlier and additional area is required and covered in this notification, are marked with suffix (Minj).

[F. No. 2013/LML/12/7/EC/986]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land & Amenities-I)